

M. Com

Set No. 1

Question Booklet No. :

14P/201/5(i)

(To be filled up by the candidate by blue/black ball-point pen)

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Roll No. (Write the digits in words)

Serial No. of OMR Answer Sheet

Day and Date (Signature of Invigilator)

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

(Use only blue/black ball-point pen in the space above and on both sides of the Answer Sheet)

1. Within 10 minutes of the issue of the Question Booklet, check the Question Booklet to ensure that it contains all the pages in correct sequence and that no page/question is missing. In case of faulty Question Booklet bring it to the notice of the Superintendent/Invigilators immediately to obtain a fresh Question Booklet.
2. Do not bring any loose paper, written or blank, inside the Examination Hall *except the Admit Card without its envelope.*
3. *A separate Answer Sheet is given. It should not be folded or mutilated. A second Answer Sheet shall not be provided. Only the Answer Sheet will be evaluated.*
4. Write your Roll Number and Serial Number of the Answer Sheet by pen in the space provided above.
5. *On the front page of the Answer Sheet, write by pen your Roll Number in the space provided at the top and by darkening the circles at the bottom. Also, wherever applicable, write the Question Booklet Number and the Set Number in appropriate places.*
6. *No overwriting is allowed in the entries of Roll No., Question Booklet no. and Set no. (if any) on OMR sheet and Roll No. and OMR sheet no. on the Question Booklet.*
7. *Any change in the aforesaid entries is to be verified by the invigilator, otherwise it will be taken as unfair means.*
8. *Each question in this Booklet is followed by four alternative answers. For each question, you are to record the correct option on the Answer Sheet by darkening the appropriate circle in the corresponding row of the Answer Sheet, by pen as mentioned in the guidelines given on the first page of the Answer Sheet.*
9. For each question, darken only one circle on the Answer Sheet. If you darken more than one circle or darken a circle partially, the answer will be treated as incorrect.
10. *Note that the answer once filled in ink cannot be changed. If you do not wish to attempt a question, leave all the circles in the corresponding row blank (such question will be awarded zero marks).*
11. For rough work, use the inner back page of the title cover and the blank page at the end of this Booklet.
12. Deposit only OMR Answer Sheet at the end of the Test.
13. You are not permitted to leave the Examination Hall until the end of the Test.
14. If a candidate attempts to use any form of unfair means, he/she shall be liable to such punishment as the University may determine and impose on him/her.

Total No. of Printed Pages : 64.

[उपर्युक्त निर्देश हिन्दी में अन्तिम आवरण पृष्ठ पर दिये गए हैं।]



14P/201/5(I)

ROUGH WORK
रफ़ कार्य

2

14P/201/5(1)

No. of Questions : 150

प्रश्नों की संख्या : 150

Time : $2\frac{1}{2}$ Hours

Full Marks : 450

समय : $2\frac{1}{2}$ घण्टे

पूर्णाङ्क : 450

Note : (1) Attempt as many questions as you can. Each question carries 3 (Three) marks. **One mark will be deducted for each incorrect answer. Zero** mark will be awarded for each unattempted question.

अधिकाधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें। प्रत्येक प्रश्न 3 (तीन) अंकों का है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जायेगा। प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का प्राप्तांक शून्य होगा।

(2) If more than one alternative answers seem to be approximate to the correct answer, choose the closest one.

यदि एकाधिक वैकल्पिक उत्तर सही उत्तर के निकट प्रतीत हों, तो निकटतम सही उत्तर दें।

01. A sole proprietor decided to use the same bank account for his personal affairs as for his business. Which of the following accounting principle is violated ?

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) Going concern | (2) Separate Entity |
| (3) Money Measurement | (4) Verifiability objective |

एक एकल स्वामी ने अपने व्यापार के बैंक खाते को अपने निजी प्रयोग में लाने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से लेखांकन के किस सिद्धान्त का उल्लंघन हुआ ?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (1) सतत व्यवहार | (2) पृथक अस्तित्व |
| (3) मौद्रिक मापन | (4) सत्यापन उद्देश्य |

14P/201/5(i)

02. Which is the accounting concept that requires the practice of crediting closing stock to the trading account

- (1) Going concern (2) Realisation
(3) Matching (4) Cost

लेखांकन की किस अवधारणा के अंतर्गत अंतिम स्टॉक को ट्रेडिंग एकाउन्ट में क्रेडिट किया जाना आवश्यक होता है ?

- (1) सतत् व्यापार (2) वसूली
(3) समीपता (4) लागत

03. The primary qualities that make accounting information useful for decision making are :

- (1) Comparability and consistency
(2) Materiality and timeliness
(3) Relevance and freedom from bias
(4) Reliability and similarity

लेखांकन सूचना को निर्णायन के लिए उपयोगी बनाने के लिए प्रमुख गुण होते हैं।

- (1) तुलनात्मकता एवं निरंतरता (2) भौतिकता एवं सामयिकता
(3) प्रासंगिकता एवं निष्पक्षता (4) विश्वसनीयता एवं सादृश्यता

04. Outstanding wages is classified as :

- (1) Capital Expenditure
(2) Revenue Expenditure
(3) Deferred Revenue Expenditure
(4) Deferred Capital Expenditure

अदत्त मजदूरी को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| (1) पूंजीगत व्यय | (2) आयगत व्यय |
| (3) स्थगित आयगत व्यय | (4) स्थगित पूंजीगत व्यय |

05. Revenue expenditure is intended to benefit :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (1) Past period | (2) Future period |
| (3) Current period | (4) Both (2) & (3) |

आगमव्यय से लाभ अपेक्षित है के लिए :

- | | |
|--------------|-----------------------|
| (1) भूतकाल | (2) भविष्य काल |
| (3) चालू समय | (4) (2) एवं (3) दोनों |

06. Any expenditure incurred in order to reduce the operating expenses is :

- (1) Promotional Expenditure
- (2) Deferred revenue Expenditure
- (3) Revenue Expenditure
- (4) Capital Expenditure

परिचालन व्ययों को कम करने के लिए किया गया कोई व्यय होता है :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| (1) प्रवर्तन व्यय | (2) स्थगित आगम व्यय |
| (3) आयगत व्यय | (4) पूंजीगत व्यय |

07. Premium received on issue of shares is a :

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (1) Deferred Capital receipt | (2) Capital Receipt |
| (3) Revenue receipt | (4) Deferred revenue receipt |

14P/201/5(1)

अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम की रकम..... प्राप्ति होती है :

- (1) स्थगित पूंजीगत आय/प्राप्ति (2) पूंजीगत आय/प्राप्ति
(3) आयगत् आय/प्राप्ति (4) स्थगित आयगत् आय/प्राप्ति

08. The appropriate method of depreciation to be adopted in case of live stock is :

- (1) Retirement method (2) Depletion method
(3) Appraisal method (4) Inventory system

जानवरों के संबंध में इस की उपयुक्त विधि होगी :

- (1) सेवानियुक्ति (होना) विधि (2) रिक्तीकरण विधि
(3) मूल्यनिर्धारण विधि (4) स्कंध विधि

09. Which of the following entry is **not** recorded in 'Journal Proper' ?

- (1) Opening entry (2) Closing entry
(3) Adjustment entry (4) Credit sales

निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि 'Journal Proper' में नहीं लिखी जाती है ?

- (1) प्रारंभिक प्रविष्टि (2) अंतिम प्रविष्टि
(3) समायोजन प्रविष्टि (4) उधार विक्रय

10. Which one of the following satisfies the accounting equation ?

- (1) Assets + Liabilities = Owners' Equity
(2) Owners' Equity + Liabilities = Assets
(3) Assets = Owners' Equity
(4) Liabilities = Owners' Equity

निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण को संतुष्ट करता है ?

- (1) संपत्तियाँ + दायित्व = स्वामी समता
- (2) स्वामी समता + दायित्व = संपत्तियाँ
- (3) संपत्तियाँ = स्वामी समता
- (4) दायित्व = स्वामी समता

11. An accrued expense can best be described as an amount :

- (1) Paid and currently matched with revenue
- (2) Paid and not currently matched with revenue
- (3) not paid and not currently matched with revenue
- (4) not paid and currently matched with revenue

एक उपचित (accrued) व्यय का एक ऐसी धनराशि के रूप में वर्णन किया जा सकता है, जो कि :

- (1) दत्त है तथा वर्तमान आगम से मेल खाती है
- (2) दत्त है परंतु वर्तमान आगम से मेल नहीं खाती है
- (3) अदत्त है तथा वर्तमान आगम से मेल नहीं खाती है
- (4) अदत्त है तथा वर्तमान आगम से मेल खाती है।

12. Assets appearing in the books but having no value are known as :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) Wasting Assets | (2) Intangible Assets |
| (3) Fictitious Assets | (4) Current Assets |

संपत्तियाँ, जिन्हें पुस्तकों में दिखाया जाता है परंतु जिनका कोई मूल्य नहीं होता है, को कहा जाता है।

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| (1) क्षयी संपत्तियाँ | (2) अमूर्त संपत्तियाँ |
| (3) काल्पनिक संपत्तियाँ | (4) चालू संपत्तियाँ |

14P/201/5(i)

13. What is the amount of purchase when :

opening stock = 3500 ₹; closing stock = 1500 ₹; cost of goods sold = 22000 ₹

क्रय की धनराशि क्या होगी, जब :

प्रारंभिक स्टॉक = 3500 ₹ अंतिम स्टॉक = 1500 ₹; विक्रीत वस्तुओं की लागत = 22000 ₹

(1) 20000 ₹ (2) 24000 ₹ (3) 23500 ₹ (4) 25500 ₹

14. Which of the following accounts would **not** have zero balance after closing entries have been posted ?

(1) Interest payable (2) Interest paid
(3) Salaries paid (4) Rent received

अंतिम प्रविष्टियों की पोस्टिंग कर देने के बाद निम्नलिखित में से किस खाते में शून्य शेष नहीं होगा ?

(1) देय व्याज (2) दत्त व्याज
(3) दत्त वेतन (4) प्राप्त किराया

15. A and B are share profits and losses in the ratio of 4:3. they admit C and the new profit sharing ratio is 3: 3: 2. If C pays Rs. 7000 to words goodwill, A will get :

अ और ब 4:3 के अनुपात में लाभ-हानि का विभाजन करते हैं। उन्होंने स को प्रवेश दिया और नया लाभ विभाजन अनुपात 3: 3: 2 है। यदि स ख्याति के लिए 7000 रु० का भुगतान करता है, तो अ को ₹ प्राप्त होगा।

(1) ₹ 3000 (2) ₹ 5500 (3) ₹ 4000 (4) ₹ 7000

16. If goodwill account is raised at its full value in the books at the time of retirement is to be written off, then the capital accounts of remaining partners are debited in :

- (1) Gaining ratio (2) Capital ratio
(3) Old profit sharing ratio (4) New profit sharing ratio

एक साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय यदि ख्याति खाते को उसके कुल मूल्य के लिए पुस्तकों में लाया जाता है, तो उसे अपलिखित करने के लिए शेष साझेदारों के पूंजी खातों को में डेबिट किया जाएगा।

- (1) लाभ अनुपात (2) पूंजी अनुपात
(3) पुराना लाभ विभाजन अनुपात (4) नया लाभविभाजन अनुपात

17. Adjusting for drawings ₹ 2000 and his share in profits ₹ 1000, is ₹ 10000. Interest on capital payable to him at 5% per annum on the opening balance is :

- (1) 350 ₹ (2) 450 ₹ (3) 500 ₹ (4) 550 ₹

एक साझेदार के पूंजी खाते में 2000 ₹ के आहरण एवं लाभ में हिस्से का 1000 ₹ समायोजित करने के बाद वर्ष के अंत में 10000 ₹ का शेष था। पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष पर 5% की दर से देय व्याज की रकम होगी :

- (1) 350 ₹ (2) 450 ₹ (3) 500 ₹ (4) 550 ₹

18. At the time of admission of a new partner revaluation of assets and liabilities is to be made for the benefit of :

- (1) old partners
(2) new partners
(3) mutual benefit of old and new partners
(4) old partners who are sacrificing

14P/201/5(4)

एक नये साझेदार के प्रवेश के समय सम्पत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन के लाभ के लिए किया जाता है :

- (1) पुराने साझेदार
- (2) नये साझेदार
- (3) पुराने एवं नये साझेदारों के पारस्परिक लाभ के लिए
- (4) पुराने साझेदार जो त्याग कर रहे हैं।

19. In case of insolvency of a partner any balance in reserve fund a/c is distributed to all the partners

- (1) In the ratio of fixed capitals
- (2) In the ratio of fluctuating capitals
- (3) In the profit sharing ratio
- (4) Equally

एक साझेदार के विघालिया होने की स्थिति में संचित कोष का शेष सभी साझेदारों में बाँटा जाता है :

- (1) स्थिर पूंजी के अनुपात में
- (2) परिवर्तनशील पूंजी के अनुपात में
- (3) लाभ-विभाजन अनुपात में
- (4) बराबर

20. Provision for bad debts appearing at the time of dissolution of firm is transferred to :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| (1) Sundry debtors a/c | (2) Realization a/c |
| (3) General Reserve a/c | (4) Partners Current Accounts. |

एक साझेदारी संस्था के विघटन के समय पुस्तकों में प्रदर्शित डूबत-ऋणों के प्रावधान की रकम को हस्तांतरित किया जाता है :

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| (1) विविध देनदार खाते को | (2) वसूली खाते को |
| (3) सामान्य संचय खाते को | (4) साझेदारों के ब्याज खातों को |

21. Which among the following is a chartered company

- (1) Standard chartered Bank
- (2) East India Company
- (3) The Institute of Chartered Accountants of India
- (4) Coal India Limited

इनमें से कौन एक चार्टर्ड कम्पनी है ?

- (1) स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
- (2) इस्ट इण्डिया कम्पनी
- (3) द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया
- (4) कोल इण्डिया लिमिटेड

22. Which one is not true about "Sweat Equity Shares" ?

- (1) It is a consideration other than cash
- (2) It is always priced higher than the market price
- (3) It is provided to obtain technical know-how
- (4) It can be issued after one year of commencement of Business

कौन सा कथन "स्वेत अंशों" के सम्बन्ध में सत्य नहीं है ?

- (1) नकद के अलावा अन्य मुआवजा
- (2) यह हमेशा बाजार मूल्य के ऊपर होता है।
- (3) प्राविधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु दिया जाता है
- (4) यह व्यापार शुद्ध करने के एक वर्ष बाद निर्गमित किया जाता है।

14P/201/5(i)

23. Security Premium Account cannot be used for :

- (1) Issuing Bonus shares
- (2) Writing off of preliminary expenses
- (3) Buyback of shares
- (4) Handling expenses on share allotment

प्रतिभूति अधिमूल्य खाता का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है :

- (1) बोनस अंश निर्गमन
- (2) प्रारम्भिक व्ययों का अपलेखन
- (3) अंशों का वापस क्रय
- (4) आवंटन पर हैण्डलिंग व्यय के लिए

24. Which is not related to capital profit/loss ?

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| (1) Capital Reserve | (2) General Reserve |
| (3) Share forfeiture | (4) Development rebate A/c |

इनमें से कौन सा विकल्प पूँजी हानि/लाभ से सम्बन्धित नहीं है ?

- | | |
|----------------|--------------------|
| (1) पूँजी संचय | (2) सामान्य संचय |
| (3) अंश हरण | (4) विकास छूट खाता |

25. From the point of view of transferability, which one is the best instrument ?

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| (1) Account Payee cheque | (2) Bearer Debenture |
| (3) Bills Receivables | (4) Bonds |

हस्तान्तरण की दृष्टि से इनमें से कौन सा सबसे अच्छा साधन है ?

- | | |
|------------------|-----------------|
| (1) रेखांकित चेक | (2) वाहक ऋणपत्र |
| (3) प्रप्य बिल | (4) बॉण्ड |

26. "Loss on issue of Debentures" and "Discount on issue of Debentures" are respectively :

- (1) Revenue loss and capital loss
- (2) Capital loss and Revenue loss
- (3) Both are Revenue loss
- (4) Both are capital loss

ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि या बढ़ा क्या है (क्रमानुसार) ?

- (1) आयगत हानि एवं पूँजी हानि
- (2) पूँजी हानि एवं आयगत हानि
- (3) दोनों आयगत हानि
- (4) दोनों पूँजीगत हानि

27. Payment of Debentures by instalments means :

- (1) Timely payment of interest on debentures
- (2) Acquiring / purchasing of debentures on instalments
- (3) Writing off the expenses on debentures
- (4) Redemption of debentures

किस्तों द्वारा ऋणपत्रों का भुगतान क्या है ?

- (1) ऋणपत्रों पर ब्याज का समय से भुगतान
- (2) ऋणपत्रों का किस्तों पर क्रय
- (3) ऋणपत्रों के व्ययों का अपलेखन
- (4) ऋणपत्रों का शोधन

14P/201/B(i)

28. Consider the following Journal entry/entries :

Old Debenture A/c Dr
Discount on issue of shares/Debentures A/c Dr
To share capital / Debentures A/c
To premium on issue of share/Debentures A/c
In what circumstances, the above entry/entries may be passed ?

- (1) Issuing a fresh lot of debentures
- (2) Simple Redemption
- (3) Redemption by conversion
- (4) Both 1 & 2

निम्नलिखित जर्नल प्रवृष्टियों को किया जाता है :

पुराना ऋण पत्र खाता	नाम
कटीती पर अंश/ऋणपत्र का निर्गमन	नाम
पूँजी/अंश ऋणपत्र खाता	जमा
अंश/ऋण पत्र का प्रभियोग पर निर्गमन	जमा

निम्न में से किस स्थिति में उपर्युक्त प्रवृष्टि की जाती है।

- (1) नये ऋण पत्र के निर्गमन में
- (2) सामान्य भुगतान में
- (3) बदलाव द्वारा भुगतान में
- (4) उपर्युक्त 1 और 2 दोनों

29. Which method is best suitable fore redemption of debentures on a specific date ?

- (1) Issuing shares against debentures
- (2) Providing sinking fund
- (3) Buyback of debentures
- (4) Creating provisions for redemption



एक निश्चित दिनांक को ऋणपत्रों का भुगतान करने हेतु कौन सा सबसे उपयुक्त है ?

- (1) ऋणपत्रों के बदले में अंशों का निर्गमन
- (2) सिंकिंग फण्ड द्वारा
- (3) अपने ऋणपत्रों की खरीद पर
- (4) शोधन के लिए प्रावधान करके

30. As per SEBI, the right issue should be kept open for more than days.

- (1) 30
- (2) 45
- (3) 60
- (4) 90

सेबी के अनुसार, अधिकार निर्गमन कितने दिन बाद तक खुला रहना चाहिए?

- (1) 30 दिन
- (2) 45 दिन
- (3) 60 दिन
- (4) 90 दिन

31. Issue of reduces EPS (Earning Per share) but doesn't affect the share capital :

- (1) Redeemable Preference share
- (2) non-convertible irredeemable preference share
- (3) Bonus share
- (4) Convertible preference share

इनमें से किसके निर्गमन से इ०पी०एस० (प्रति अंश आय) घटता है परन्तु अंश पूँजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है

- (1) शोधनीय पूर्वाधिकार अंश
- (2) अपरिवर्तनीय अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश
- (3) बोनस अंश
- (4) परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश

14P/201/5(I)

32. Which of the following formats has not been prescribed by the companies Act, 1956 ?

- (1) Balance sheet
- (2) Profit and loss A/c
- (3) Statement of affairs of a company
- (4) Cash flow statement

निम्न में से कौन सा फारमेट कम्पनी अधिनियम 1956 में विहित नहीं है।

- (1) आर्थिक चिद्र्ठा
- (2) लाभ-हानि खाता
- (3) स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कम्पनी
- (4) धनापूर्ति विवरण

33. The General Intention behind keeping secret reserve is ?

- (1) To fight uncertain future
- (2) Showing better position than actual
- (3) Showing worse position than actual
- (4) Suppression of material facts to avoid tax

गुप्त संचय रखने के पीछे कम्पनी का आम तौर पर क्या उद्देश्य होता है ?

- (1) अनिश्चित भविष्य से सामना करना
- (2) आपनी स्थिति को वास्तविक स्थिति से अच्छा दिखाना
- (3) अपनी स्थिति को वास्तविक स्थिति से खराब दिखाना
- (4) मटेरियल तथ्य को छिपाकर कर की चोरी करना

34. According to the companies Act 1956, where the dividend proposed exceeds 12.5% but does not exceed 15% of the paid up capital, the amount to be transferred to the reserves shall be not less than % of current profits.

कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार पूर्वदत्त पूँजी पर प्रस्तावित लाभांश 12.5% से अधिक और 15% से कम होने की दशा में संचय, वर्तमान लाभ का कितना प्रतिशत हस्तान्तरण होता है ?

- (1) 2.5% (2) 5% (3) 7.5% (4) 10%

35. In the event of preparing profit and Loss Appropriation A/c. Income Tax on profit through an appropriation of profit is treated as

- (1) Expense (2) Asset
(3) Liability (4) Adjustment

लाभ-हानि समायोजन खाता बनाने के समय लाभ पर आयकर, विनियोजन खाते में कैसे विवेचित करते हैं ?

- (1) व्यय (2) सम्पत्ति
(3) दायित्व (4) समायोजन

36. Surplus is equal to :

- (1) Royalty + Minimum Rent
(2) Royalty - Minimum Rent
(3) Minimum Rent - Royalty
(4) Minimum Rent - Shortworkings

14P/201/5(1)

आधिक्य बराबर होता है :

- (1) अधिकार शुल्क + न्यूनतम किराया
- (2) अधिकार शुल्क - न्यूनतम किराया
- (3) न्यूनतम किराया - अधिकार शुल्क
- (4) न्यूनतम किराया - लघुकार्य

37. At the time of closing the Books Royalty Account is transferred to :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| (1) Balance sheet | (2) Profit and Loss account |
| (3) Production account | (4) Manufacturing Account |

अधिकार-शुल्क खाते को पुस्तकें बन्द करते समय हस्तान्तरित किया जाता है :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) आर्थिक चिट्ठे में | (2) लाभ-हानि खाते में |
| (3) उत्पादन खाते में | (4) निर्माणा खाते में |

38. On the seizure of the goods by the hire-vendors the balance in the asset account is transferred by the hire- buyer to :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| (1) Goods Returned A/c | (2) Profit & loss A/c |
| (3) Hire- Vendor's A/c | (4) Stock A/c |

किराया-विक्रेता द्वारा माल की जब्ती पर सम्पत्ति खाते के शेष को क्रेता द्वारा हस्तान्तरित किया जाता है :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| (1) माल वापसी खाते में | (2) लाभ-हानि खाते में |
| (3) किराया-विक्रेता के खाते में | (4) रहतिया खाते में |

39. In case of Instalment Payment system the balance in Interest suspense account in the books of buyer is shown on the :

- (1) Debit side of P/L A/c
- (2) Credit side of P/L A/c
- (3) Assets side of balance sheet
- (4) Liabilities side of balance sheet

किस्त भुगतान पद्धति की दशा में ब्याज उच्यन्त खाते के शेष को क्रेता की पुस्तकों में दिखाया जाता है :

- (1) लाभ-हानि खाते के डेबिट पक्ष में
- (2) लाभ-हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में
- (3) आर्थिक चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में
- (4) आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में

40. Branch Account under debtor systems is :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| (1) Real Account | (2) Personal Account |
| (3) Nominal Account | (4) Capital Account |

देनदार विधि-अनुसार शाखा खाता है

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (1) वास्तविक खाता | (2) व्यक्तिगत खाता |
| (3) नाममात्र खाता | (4) पूँजी खाता |

41. If opening or closing balance of debtors of a branch is not given, it will be found by preparing :

- (1) Branch Account
- (2) Branch stock Account
- (3) Branch Debtors Account
- (4) Branch Adjustment Account

यदि देनदारों का प्रारम्भिक या अन्तिम शेष न दिया गया हो, तो उसको ज्ञात करने हेतु तैयार कना होगा :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (1) शाखा खाता | (2) शाखा स्टॉक खाता |
| (3) शाखा देनदार खाता | (4) शाखा समायोजन खाता |

14P/201/5(I)

42. In which city amongst the following, Presidency towns Insolvency Act 1909 does not apply ?

- | | |
|-------------|------------|
| (1) Chennai | (2) Delhi |
| (3) Kolkata | (4) Mumbai |

निम्नांकित में से किस शहर में प्रेसीडेन्सी टाउन्स दिवालिया अधिनियम, 1909 लागू नहीं होता ?

- | | |
|-------------|------------|
| (1) चेन्नई | (2) दिल्ली |
| (3) कोलकाता | (4) मुंबई |

43. List G of the statement of Affairs is related to :

- | | |
|----------------|----------------------------|
| (1) Book Debts | (2) Bills of Exchange |
| (3) Property | (4) Preferential Creditors |

स्थिति-विवरण की सूची 'जी' सम्बन्धित है :

- | | |
|--------------|------------------------|
| (1) देनदार | (2) विनिमय पत्र |
| (3) सम्पत्ति | (4) पूर्वाधिकार लेनदार |

44. Demand deposits are shown by the bank in the :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (1) Schedule 03 | (2) Schedule 04 |
| (3) Schedule 05 | (4) Schedule 06 |

मॉग निक्षेप को बैंक द्वारा दर्शाया जाता है :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (1) अनुसूची 03 में | (2) अनुसूची 04 में |
| (3) अनुसूची 05 में | (4) अनुसूची 06 में |

45. The subscribed capital of a Banking company should not be less than the following percentage of its authorized capital :

बैंकिंग कम्पनी की प्रार्थित पूँजी उसकी अधिकृत पूँजी के निम्नलिखित प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए :

- (1) 30% (2) 50% (3) 70% (4) 90%

46. XYZ Ltd. Has Current Ratio of 1.5:1 and Net Current Assets of ₹ 6,00,000 . Calculate current Assets :

XYZ Ltd. का चालू अनुपात 1.5:1 तथा शुद्ध चालू सम्पत्ति ₹ 6,00,000 की है, गणना करो चालू सम्पत्ति होगी :

- (1) ₹ 12,00,000 (2) ₹ 18,00,000
(3) ₹ 15,00,000 (4) ₹ 24,00,000

47. The ratio of debt to total assets of a company is 0.2. The debt to Equity Ratio would be :

ऋण का कुल सम्पत्ती से अनुपात 0.2 है। तो ऋण समता अनुपात होगा

- (1) 0.025 (2) 1.00 (3) 0.80 (4) 0.25

48. Axis Limited has a Debt Equity Ratio of 2.8 where as the Industry average is 2. It means that the company has :

- (1) Higher Capital employed (2) Higher Profitability
(3) Higher Liquidity (4) Higher Financial Risk

14P/201/5(I)

एक्सीस ली. का ऋण समता अनुपात 2.8 है, जबकि इस तरह की कम्पनी का औसत अनुपात 2 है। इससे आशय है कि कम्पनी की स्थिति :

- (1) ऊँचा पूँजी निवेश (2) ऊँची लागत
(3) ऊँची तरलता (4) ऊँचा वित्तीय जोखिम

49. ABC Ltd. has earned 8% return on total assets of ₹ 40,00,000 and has a net profit of 10%. Find out the sales of the firm :

- (1) ₹ 32 Lakhs (2) ₹ 40 Lakhs
(3) ₹ 16 Lakhs (4) ₹ 3.2 Lakhs

अ व स ली० कुल सम्पत्ति ₹ 40,00,000 पर 8% की आय प्राप्त करता है और उसका शुद्ध लाभ 10% है। फर्म की विक्री की राशी ज्ञात करो :

- (1) ₹ 32 लाख (2) ₹ 40 लाख
(3) ₹ 16 लाख (4) ₹ 3.2 लाख

50. A company has cash sales ₹ 80,000, credit sales ₹ 2,20,000 opening stock ₹ 25,000, closing stock ₹ 10,000 more than opening stock and Gross Profit Ratio of 25% calculate inventory Turnover Ratio

- (1) 7.5 times (2) 7.05 times
(3) 8.5 times (4) 7.25 times

एक कम्पनी की नगद विक्री ₹ 80,000 तथा उधार विक्री ₹ 2,20,000 है प्रारम्भिक रहतिया ₹ 25,000, अन्तिम रहतिया ₹ 10,000 प्रारम्भिक रहतिया से ज्यादा है तथा सकल लाभ अनुपात 25% स्टॉक आर्वत अनुपात की गणना करें।

- (1) 7.5 गुना (2) 7.05 गुना
(3) 8.5 गुना (4) 7.25 गुना

51. The most rigorous test of liquidity is :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (1) working capital Ratio | (2) current ratio |
| (3) quick ratio | (4) absolute liquid ratio |

तरलता की सबसे बड़ी जाँच होती है :

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| (1) कार्यशील पूँजी अनुपात से | (2) चल अनुपात से |
| (3) तरल अनुपात से | (4) पूर्ण तरलता अनुपात से |

52. Which of the following is non-current liability :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| (1) Creditors | (2) Bank overdraft |
| (3) Outstanding wages | (4) Mortgage loan |

निम्नलिखित में से कौन गैर चालू दायित्व है :

- | | |
|------------------|--------------------|
| (1) लेनदार | (2) बैंक अधिविकर्ष |
| (3) अदत्त मजदूरी | (4) बन्धक ऋण |

53. When the proprietor transfers his private building to the business there is :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) Inflow of cash | (2) Outflow of cash |
| (3) No flow of cash | (4) change in cash |

जब स्वामी अपना निजी भवन व्यवसाय को हस्तान्तरित करता है :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| (1) रोकड़ का अन्दर बहाव | (2) रोकड़ का बाह्य बहाव |
| (3) रोकड़ का कोई बहाव नहीं | (4) रोकड़ में परिवर्तन |

14P/201/5(I)

54. Which of the following is not the application of cash :

- (1) Increase in outstanding expenses
- (2) Increase in prepaid expenses
- (3) Increase in Inventory
- (4) Increase in Bills Receivable

निम्नलिखित में से कौन रोकड़ का प्रयोग नहीं है :

- (1) अदत्त व्ययों में वृद्धि
- (2) पूर्वदत्त व्ययों में वृद्धि
- (3) रहतिये में वृद्धि
- (4) प्राप्य बिल में वृद्धि

55. Opening stock is :

- (1) Source of funds
- (2) Application of funds
- (3) No flow of funds
- (4) fixed asset

प्रारम्भिक रहतिया होता है :

- (1) कोष का स्रोत
- (2) कोष का प्रयोग
- (3) कोष प्रवाह नहीं
- (4) स्थायी सम्पत्ति

56. Which of the following ratios is favourable indication, if it is low ?

- (1) operating profit ratio
- (2) fixed asset turnover ratio
- (3) current asset turnover ratio
- (4) operating ratio

निम्नलिखित अनुपातों में से कौन अनुपात अच्छी स्थिति के प्रदर्शित करता है यदि वह नीचा हो ?

- (1) संचालन से लाभ अनुपात
- (2) स्थायी सम्पत्ति आवर्त अनुपात
- (3) चालू सम्पत्ति आवर्त अनुपात
- (4) संचालन अनुपात

57. The word teeming and lading are used :

- (1) Fraud of cash
- (2) Mainpulation in Accounts
- (3) Fraud of goods
- (4) Fraud of Labour

टीमिंग एवम् लैडिंग शब्द का प्रयोग होता है :

- (1) रोकड़ के गबन के लिये
- (2) लेबरों में गड़बड़ी
- (3) माल के गबन के लिये
- (4) श्रम के गबन के लिये

58. An audit programme will be useful if it is :

- (1) Elastic
- (2) Inelastics
- (3) Short
- (4) Detail

एक अंकेक्षण कार्यक्रम न भी उपयोगी होगा जबकि वह है :

- (1) लोचपूर्ण
- (2) अलोचपूर्ण
- (3) संक्षिप्त
- (4) विस्तृत

59. Vouching item is not of receipt side of cash book is :

- (1) Bad debts recovered
- (2) Received trade discount
- (3) Rent received
- (4) Income tax refund

रोकड़बही के प्राप्ति पक्ष के प्रमाणन की मद नहीं है :

- (1) प्राप्त डूबत ऋण
- (2) प्राप्त व्यापारिक बट्टा
- (3) प्राप्त किराया
- (4) आयकर वापसी

14P/201/5(i)

60. Validity of payment means :

- (1) Correct amount paid
- (2) Payment to right person
- (3) payments is authorized by appropriate officer
- (4) Payment as per rules

भुगतान की वैधता का आशय है :

- (1) सही रकम का भुगतान हो
- (2) सही व्यक्ति को भुगतान हो
- (3) भुगतान उचित अधिकारी से अधिकृत हो
- (4) भुगतान नियमानुसार हो

61. Previous year and assessment year may be the same in case of

- (1) income of a non-resident from dairy
- (2) income of a resident from business in a foreign country
- (3) income of a resident from shipping
- (4) income of a discontinued business

पूर्व-वर्ष और कर निर्धारण वर्ष समान होता है में :

- (1) अनिवासी की डेयरी से आय
- (2) निवासी की विदेश व्यापार से आय
- (3) निवासी की जलपोत से आय
- (4) बन्द कीये गये व्यापार की आय

62. X is a non-resident and received ₹ 1,50,000 form a business in Nigeria (40% of which received in India). The amount taxable in the hands of X in India is

- | | |
|----------------|--------------|
| (1) Nil | (2) ₹ 60,000 |
| (3) ₹ 1,50,000 | (4) ₹ 90,000 |

X अनिवासी है और ₹ 1,50,000 नाइजीरिया में व्यापार से आय प्राप्त करता है (उसका 40% भारत में प्राप्त करता है)। भारत में X के लिए कितनी धनराशि कर योग्य होगी ?

- (1) शून्य (2) ₹ 60,000
(3) ₹ 1,50,000 (4) ₹ 90,000

63. Mr. A took loan of Rs. 4,00,000 at an interest of 10% p.a. for the purpose of repairs relating to a house which he used for own residential purpose. The deduction allowable to him under section 24 (3) for the assessment year 2013-14 is :

- (1) ₹ 40,000 (2) Nil
(3) ₹ 30,000 (4) ₹ 1,50,000

मि० ए द्वारा अपने निवास करने हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले मकान की मरम्मत के लिए रु० 4,00,000, 10% ब्याज पर ऋण लेता है, धारा 24(3) के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में कितनी धनराशि आय से कटौती के लिए मान्य होगी :

- (1) ₹ 40,000 (2) शून्य
(3) ₹ 30,000 (4) ₹ 1,50,000

64. Which one of the following receipts is taxable as 'profits in lieu of salary' ?

- (1) Compensation received under voluntary retirement scheme
(2) Retrenchment compensation
(3) Compensation received in connection with termination of employment
(4) Compensation received on account of any disaster

14P/201/5(i)

निम्न में से कौन एक प्राप्ति कर योग्य है 'वेतन के स्थान में लाभ' ?

- (1) ऐच्छिक सेवा निवृत्ति के अन्तर्गत प्राप्त दावों की धनराशि
- (2) सेवा से विरत किन्हे जाने पर प्राप्त दावों की धनराशि
- (3) नौकरी से निकाले जाने के विरुद्ध प्राप्त दावे की धनराशि
- (4) कोई दुर्घटना के कारण प्राप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि

65. T Ltd. paid ₹ 1,00,000 to the ISI, Kolkata for research in social science. The allowable deduction under section 35 is

सामाजिक विज्ञान पर शोध हेतु टी लि० ₹ 1,00,000 की धनराशि आई. एस. आई. कोलकाता को भुगतान करता है। कितनी धनराशि की छूट धारा 35 के अन्तर्गत देय है ?

- | | |
|----------------|----------------|
| (1) ₹ 2,00,000 | (2) ₹ 1,75,000 |
| (3) ₹ 1,00,000 | (4) ₹ 1,25,000 |

66. In which case is the capital gain taxable in a year other than the year of transfer ?

- (1) insurance claim received on destruction of capital assets
- (2) transfer of listed shares
- (3) conversion of stock into capital assets
- (4) both 1 and 3

निम्न में से किसमें पूँजीगत लाभ कर योग्य होता है जिस वर्ष में वह हस्तान्तरित होता है उस वर्ष के अन्य वर्ष में

- (1) पूँजीगत सम्पत्ति हानि पर बीमा दावे की प्राप्त धनराशि
- (2) सूचीबद्ध अंश के हस्तान्तरण पर
- (3) रहतिया का पूँजीगत सम्पत्ती में बदलाव
- (4) 1 और 3 दोनों

67. Which of the following transactions is not an exempted transaction ?

- (1) transfer of capital asset in a scheme of amalgamation
- (2) transfer of capital asset in a scheme of demerger
- (3) transfer of Tenancy right
- (4) transfer under gift or will

निम्नलिखित में कौन सा लेन देन एक प्रतिनिधि/उदाहरणार्थ लेन देन नहीं है ?

- (1) एकीकरण की योजना में पूँजी का हस्तान्तरण
- (2) पृथकीकरण की योजना में पूँजी का हस्तान्तरण
- (3) मालिकाना अधिकार का हस्तान्तरण
- (4) विल या उपहरण अन्तर्गत हस्तान्तरण

68. 100 Bonus shares were allotted on 7.8.78 (fair market value on 7.8.78 : ₹ 30 per share fair; market value on 1.4.81: ₹ 62 per share). All the Bonus shares were sold during 2012-13. The cost of acquisition of such share

- | | |
|-------------|-------------|
| (1) ₹ 3,000 | (2) Nil |
| (3) ₹ 6,200 | (4) ₹ 3,200 |

दिनांक 7.8.78 को 100 बोनस अंश आबंटित किया गया (जिसका दिनांक 7.8.78 को वास्तविक बाजार मूल्य ₹ 30 प्रति अंश का तथा 1.4.81 को ₹ 62 प्रति अंश वास्तविक बाजार मूल्य का)

सभी बोनस अंश वर्ष 2012-13 के दौरान बेचे गये थे उस अंश की क्रय लागत होगी :

- | | |
|-------------|-------------|
| (1) ₹ 3,000 | (2) शून्य |
| (3) ₹ 6,200 | (4) ₹ 3,200 |

14P/2017/5(1)

69. The standard time required per unit of a product is 20 minutes. In a 8 hour day, a worker produces 30 units. If he gets a time rate of Rs. 20, his earnings under the Halsey scheme is

एक यूनिट के निर्माण में 20 मिनट के मानक समय की आवश्यकता होती है दिन के 8 घंटे में एक कर्मचारी द्वारा 30 यूनिट उत्पादित की जाती है। यदि वह समय दर रु० 20.00 प्राप्त करता है तो उसकी आय हैल्से योजना अन्तर्गत है :

- (1) ₹ 160 (2) ₹ 180 (3) ₹ 190 (4) ₹ 200

70. If the actual output is lower than the budgeted output. Which one of the following costs is expected to be lower than in the budget ?

- (1) Fixed costs per unit (2) Variable costs per unit
(3) Total fixed costs (4) Total variable costs

यदि मानक उत्पादकता से वास्तविक उत्पादकता कम है निम्न में कौन सी लागत बजट में न्यून हो सकती है ?

- (1) स्थिर लागत प्रति यूनिट
(2) परिवर्तनशील लागत प्रति यूनिट
(3) कुल स्थिर लागत
(4) कुल परिवर्तनशील लागत

71. Which one of the following is not charged to factory overhead ?

- (1) costs of service departments
(2) costs of maintenance departments
(3) costs of marketing departments
(4) factory depreciation and supplies

निम्न में से कौन कारखाना उपरिव्यय में सम्मिलित नहीं की जाती है ?

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| (1) सेवा विभाग की लागत | (2) अनुरक्षण विभाग की लागत |
| (3) विक्रय विभाग की लागत | (4) कारखाना ड्रास एवं आपूर्ति |

72. The appropriate base for assigning overhead is production unit when

- (1) only one product is manufactured
- (2) several well differentiated products are manufactured
- (3) the manufacturing process is complex
- (4) the direct labour costs are low

उपरिव्ययों के बटवारे हेतु उत्पादित यूनिट उपयुक्त आधार है जब :

- (1) जब केवल एक उत्पाद का निर्माण होता हो
- (2) विभिन्न प्रकार के सुपरिभाषित उत्पाद से निर्मित किये जाते हो
- (3) निर्माण प्रक्रिया जटिल हो
- (4) सीधी मजदूरी लागत न्यून हो

73. Fixed costs are conveniently deemed to be

- (1) constant in total when production volume changes
- (2) outside the control of the management
- (3) constant per unit of output
- (4) these unaffected by inflation

स्थिर लागत आसानी से दिखाती है :

- (1) उत्पादन की मात्रा परिवर्तित होने पर भी कुल में स्थिर हो
- (2) प्रबन्ध के नियन्त्रण से बाहर हो
- (3) प्रति यूनिट के उत्पादन पर समान हो
- (4) वे मुद्रा स्फीत में अप्रभावित रहती है

14P/201/5(i)

74. Which one of the following costing methods is widely used in internal reporting ?

- | | |
|------------------------|----------------------|
| (1) Absorption costing | (2) Direct costing |
| (3) Marginal costing | (4) Standard costing |

निम्न में से एक लागत पद्धति वृहत् रूप से अन्तरिक सूचना में प्रयुक्त की जाती है ?

- | | |
|------------------|--------------------|
| (1) अवशोषण लागत | (2) प्रत्यक्ष लागत |
| (3) सीमान्त लागत | (4) प्रमाण लागत |

75. A company has sales of ₹ 2,00,000 with variable expenses of ₹ 1,50,000. What should be the increase in sales in order to achieve an operating income of 10% on sales ?

एक कम्पनी ₹ 2,00,000 की बिक्री करती है जिसका परिवर्तनशील व्यय ₹ 1,50,000 का है उसे कितनी बिक्री बढ़ानी होगी जिससे उसकी परिचालन आय बिक्री की 10% हो जाये।

- | | |
|----------------|----------------|
| (1) ₹ 2,00,000 | (2) ₹ 2,31,000 |
| (3) ₹ 2,51,000 | (4) ₹ 4,00,000 |

76. Partnership firm is set-up for the purpose of :

- (1) Promoting public health and welfare
- (2) Running a business
- (3) Protecting environment
- (4) Preserving forest

साम्प्रदायी फर्म बनाने का उद्देश्य है :

- (1) लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण के संवर्धन हेतु
- (2) व्यवसाय संचालन हेतु
- (3) पर्यावरण संरक्षण हेतु
- (4) जंगल के संरक्षण हेतु

77. Which of the following is related to partnership ?

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (1) Mutual agency | (2) Common seal |
| (3) Direct motivation | (4) Perpetual succession |

निम्नलिखित में से कौन सा साम्प्रदायी से सम्बन्धित है ?

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| (1) पारस्परिक अभिकरण | (2) सार्वमुद्रा |
| (3) प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा | (4) शाश्वत उत्तराधिकार |

78. Trade union is a form of :

- | | |
|-----------------|------------|
| (1) Federation | (2) Pool |
| (3) Association | (4) Merger |

व्यावसायिक संघ एक स्वरूप है :

- | | |
|--------------|-------------|
| (1) संघनन का | (2) पूल का |
| (3) संघ का | (4) विलय का |

79. Pool came into being in :

- | | |
|-------------|-------------|
| (1) USA | (2) Japan |
| (3) Germany | (4) England |

14P/201/5(H)

पूल का जन्म हुआ :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (1) यू. एस. ए. में | (2) जापान में |
| (3) जर्मनी में | (4) इंग्लैण्ड में |

80. Cartel is combination of :

- | | |
|------------------|-----------------|
| (1) Distributors | (2) Wholesalers |
| (3) Retailers | (4) Producers |

उत्पाद संघ एक संयोजन है :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| (1) वितरकों का | (2) थोक व्यवसायियों का |
| (3) खुदरा व्यवसायियों का | (4) उत्पादकों का |

81. Which of the following is a feature of organisation structure ?

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| (1) An act of selection | (2) Pyramidic in form |
| (3) A mental process | (4) A psychological process |

निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संरचना का एक स्वरूप है ?

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| (1) चयन की एक प्रक्रिया का | (2) पिरामिड के आकार का |
| (3) एक मानसिक प्रक्रिया का | (4) एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का |

82. Which of the following is not related to functional organisation ?

- | | |
|-----------------|----------------|
| (1) Gang Boss | (2) Speed Boss |
| (3) Repair Boss | (4) Time Boss |

निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक संगठन से सम्बन्धित नहीं है ?

- | | |
|----------------|---------------|
| (1) गैंग बॉस | (2) स्पीड बॉस |
| (3) रिपेयर बॉस | (4) टाइम बॉस |

83. Who has classified management functions into five parts ?

- | | |
|---------------------|-------------------|
| (1) Henri Fayol | (2) F.W. Taylor |
| (3) George R- Terry | (4) Luther Gulick |

प्रबन्धन कार्य को किसने पाँच भागों में वर्गीकृत किया है ?

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| (1) हेनरी फेयोल ने | (2) एफ.डब्ल्यू. टेलर ने |
| (3) जार्ज आर. टेरी ने | (4) लूथर गुलिक ने |

84. Who is responsible for performing the planning function of management ?

- | | |
|-------------------|---------------|
| (1) Share holders | (2) Managers |
| (3) Workers | (4) Outsiders |

प्रबन्ध के नियोजन कार्य को पूरा करने के लिए कौन उत्तरदायी है ?

- | | |
|-------------|-------------------|
| (1) अंशधारक | (2) प्रबन्धक |
| (3) मजदूर | (4) बाहरी व्यक्ति |

85. Which of the following is an element of planning ?

- | | |
|-------------|---------------|
| (1) Guiding | (2) Reporting |
| (3) Policy | (4) Selection |

निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का एक तत्व है ?

- | | |
|----------------|---------------|
| (1) मार्गदर्शन | (2) प्रतिवेदन |
| (3) नीति | (4) चयन |

14P/201/5(1)

86. Who has said, "planning is fundamentally choosing" ?

- | | |
|--------------------|-----------------|
| (1) Billy E. Goetz | (2) F.W. Taylor |
| (3) Mc Farland | (4) Earl Strong |

किसने कहा "नियोजन मूलतः चुनना है" ?

- | | |
|--------------------|----------------------|
| (1) बिली ई. गोयेटज | (2) एफ. डब्ल्यू टेलर |
| (3) मेक फारलेन्ड | (4) अर्ल स्ट्रांग |

87. Organisation does not include :

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| (1) Division of work | (2) Group of individuals |
| (3) Sources of authority | (4) Formulation of budget |

संगठन समाहित नहीं करता है :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| (1) कार्य का विभाजन | (2) व्यक्तियों का समूह |
| (3) अधिकारों का आधार | (4) बजट का निर्धारण |

88. The principle of receiving orders from one superior is termed as the principle of :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| (1) Unity of command | (2) Unity of direction |
| (3) Functional definition | (4) Span of management |

आदेशों का उर्ध्ववर्ती से प्राप्त करना सिद्धान्त कहलाता है :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (1) आदेश की एकता का | (2) निर्देशन की एकता का |
| (3) कार्यात्मक परिभाषा का | (4) प्रबन्ध के विस्तार का |

89. Decision making theory of organisation has been propounded by :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (1) Rensis Likert | (2) Chris Argyris |
| (3) Herbert A. Simon | (4) Henri Fayol |

संगठन का निर्णयन सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| (1) रेन्सिस लाइकर्ट द्वारा | (2) क्रीस अरगायरिस द्वारा |
| (3) हरवर्ट ए. साइमन द्वारा | (4) हेनरी फेयोल द्वारा |

90. Staffing is an act of :

- (1) Matching the people with jobs
- (2) Matching the people with planning
- (3) Controlling the people
- (4) Motivating the people

स्टाफिंग एक कार्य है :

- (1) लोगों का कार्य के साथ मिलान करना
- (2) लोगों का नियोजन के साथ मिलान करना
- (3) लोगों को नियंत्रित करना
- (4) लोगों को अभिप्रेरित करना

91. The process of coming to a conclusion is related to :

- | | |
|---------------|---------------------|
| (1) Planning | (2) Organising |
| (3) Directing | (4) Decision making |

निष्कर्ष पर पहुँचने की प्रक्रिया सम्बन्धित है :

- | | |
|-----------------|----------------|
| (1) नियोजन से | (2) संगठन से |
| (3) निर्देशन से | (4) निर्णयन से |

14P/201/5(I)

92. Organising includes :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| (1) Issuing orders | (2) Counselling |
| (3) Supervising | (4) Granting authority |

संगठन में सम्मिलित है :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| (1) आदेशों का निर्गमन | (2) परामर्श देना |
| (3) पर्यवेक्षण करना | (4) अधिकार सौंपना |

93. Which of the following is a principle of directing ?

- (1) Principle of managerial appraisal
- (2) principle of management development
- (3) principle of job definition
- (4) principle of managerial communication

निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का सिद्धान्त है ?

- (1) प्रबन्धकीय मूल्यांकन का सिद्धान्त
- (2) प्रबन्ध विकास का सिद्धान्त
- (3) कार्य परिभाषा का सिद्धान्त
- (4) प्रबन्धकीय सम्प्रेषण का सिद्धान्त

94. The process of control does not consist of :

- (1) Measurement of performance
- (2) Detection of deviation
- (3) Establishment of standards
- (4) Break-even point analysis

नियंत्रण प्रक्रिया में नहीं होता है :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| (1) कार्य का मूल्यांकन | (2) विचलन को खोजना |
| (3) मानक को स्थापित करना | (4) सम-विच्छेद बिन्दु विश्लेषण |

95. Non-budgetary control technique includes :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| (1) Audit | (2) Statistical data |
| (3) Break even point analysis | (4) All of the above |

गैर बजटीय नियंत्रण तकनीक में सम्मिलित है :

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| (1) अंकेक्षण | (2) सांख्यिकीय समंक |
| (3) सम-विच्छेद बिन्दु विश्लेषण | (4) उपरोक्त सभी |

96. A void agreement is one which is :

- (1) Valid but not enforceable
- (2) Enforceable at the option of both the parties
- (3) Enforceable at the option of one party
- (4) Not enforceable in a court of law

एक शून्य करार वह है जो कि :

- (1) विधिमान्य है परन्तु प्रवर्तनीय नहीं है
- (2) दोनों ही पक्षकारों के विकल्प पर प्रवर्तनीय है
- (3) एक पक्षकार के विकल्प पर प्रवर्तनीय है
- (4) विधिक न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है

14P/201/5(1)

97. Cash withdrawn by a customer of a bank from the automatic teller machine (A.T.M.) is an example of :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (1) Express contract | (2) Void contract |
| (3) Tacit contract | (4) Illegal contract |

स्वचालित टेलर मशीन (ए.टी.एम.) से बैंक के एक ग्राहक द्वारा निकाली गई नकद राशि, उदाहरण है :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) अभिव्यक्त संविदा का | (2) शून्य संविदा का |
| (3) मौन संविदा का | (4) अविधिमान्य संविदा का |

98. A promises to pay to B Rs. 1000 if B's house is burnt. This is a :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) Contingent contract | (2) Uncertain contract |
| (3) Wagering contract | (4) Enforceable contract |

ब के मकान में आग लगने पर अ, ब को 1000 रु० संदाय करने का वचन देता है, यह है :

- (1) समाश्रित संविदा
- (2) अनिश्चित संविदा
- (3) पक्ष्यम करार या बाजी की संविदा
- (4) प्रवर्तनीय संविदा

99. When two parties exchange identical offers in ignorance of each other's offer, the offers are called :

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| (1) Cross offers | (2) Counter offers |
| (3) Standing offers | (4) Invitation to an offer |

जब दो पक्षकार एक दूसरे की जानकारी बिना समान प्रस्तावों का विनिमय करते हैं तो इस प्रकार के प्रस्ताव कहलाते हैं :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| (1) क्रान्त प्रस्ताव | (2) प्रति प्रस्ताव |
| (3) स्थायी प्रस्ताव | (4) प्रस्ताव का आमंत्रण |

100. A new partner can be admitted in the firm with the consent of :

- (1) All of the firm's partners
- (2) Simple majority of the partners of the firm
- (3) Special majority of the partners of the firm
- (4) New partners only

फर्म में एक नया भागीदार सम्मिलित किया जा सकता है :

- (1) फर्म के सभी भागीदारों की सहमति से।
- (2) फर्म के भागीदारों के साधारण बहुमत द्वारा सहमति से
- (3) फर्म के भागीदारों के विशेष बहुमत द्वारा सहमति से
- (4) केवल नये भागीदारों की सहमति से

101. A and B agree to work together as goldsmith but A shall receive all profits and shall pay wages to B. The relation between A and B is as of :

- | | |
|---------------|--------------------|
| (1) Partners | (2) Goldsmith |
| (3) Labourers | (4) Master-Servant |

अ और ब आपस में सुनारी कार्य करने का करार करते हैं परन्तु अ सभी लाभ प्राप्त करेगा और ब को केवल मजदूरी देगा। अ और ब के मध्य सम्बन्ध हैं :

- | | |
|------------------|----------------------|
| (1) भागीदारों के | (2) सुनारी के |
| (3) श्रमिक के | (4) मालिक और नौकर के |

14P/201/5(I)

102. Which of the following statements about implied authority of a partner is true ?

- (1) A partner in a firm of commercial nature may pledge the partnership property
- (2) A partner may acquire immoveable property on behalf of the firm
- (3) A partner may enter into partnership on behalf of the firm
- (4) A partner may transfer immoveable property belonging to the firm

भागीदारों के विवक्षित अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- (1) वाणिज्यिक किस्म की फर्म में एक भागीदार, भागीदारी सम्पत्ति को गिरवी रख सकता है
- (2) फर्म के लिए एक भागीदार अचल सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है
- (3) फर्म के लिए किसी भी भागीदारी फर्म में भागीदार बन सकता है
- (4) फर्म की अचल सम्पत्ति का, एक भागीदार अन्तरण कर सकता है

103. Which one of the following statement is correct ?

- (1) Agreement to sale is executory contract
- (2) Agreement to sale is executed contract
- (3) Agreement to sale is both executed and executory contract
- (4) Agreement to sale is not an executed or executory contract

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- (1) विक्रय का करार एक निस्पाद्य संविदा है
- (2) विक्रय का करार निष्पादित संविदा है
- (3) विक्रय का करार निष्पादित और निस्पाद्य संविदा दोनों ही हैं
- (4) विक्रय का करार निष्पादित और निस्पाद्य दोनों ही प्रकार की संविदाएँ नहीं हैं

104. Which of the following is not an implied condition in a contract of sale ?

- (1) Condition as to description
- (2) Condition as to sample
- (3) Condition as to undisturbed Possession
- (4) Condition as to wholesomeness

एक विक्रय की संविदा में निम्नलिखित में से कौन सी विवक्षित शर्त नहीं है ?

- (1) वर्णन के अनुसार शर्त
- (2) नमूने के अनुसार शर्त
- (3) निर्बाध कब्जा के अनुसार शर्त
- (4) स्वास्थ्य प्रदता के अनुसार शर्त

105. The sale of Goods Act, 1930 deals with :

- | | |
|------------|--------------|
| (1) sale | (2) Mortgage |
| (3) Pledge | (4) Lease |

माल विक्रय अधिनियम, 1930 चर्चा करता है :

- | | |
|---------------|--------------|
| (1) विक्रय पर | (2) बन्धक पर |
| (3) गिरवी पर | (4) पट्टे पर |

14P/201/5(1)

106. In an auction sale the property shall be sold to the :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| (1) Lowest bidder | (2) Highest bidder |
| (3) All bidders | (4) Not to any body |

निलाम द्वारा विक्रय में सम्पत्ति बेची जायेगी

- (1) सबसे कम बोली लगाने वाले को
- (2) सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को
- (3) सभी बोली लगाने वालों को
- (4) किसी को भी नहीं

107. An instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker is called :

- | | |
|------------|----------------------|
| (1) Cheque | (2) Bill of Exchange |
| (3) I.O.U. | (4) promissory note |

एक लिखित विलेख जिसमें बिना शर्त आदेश निष्पादक द्वारा हस्ताक्षरित हो :

- (1) चैक कहलाता है
- (2) विनिमय पत्र कहलाता है
- (3) ऋण स्वीकृति पत्र (आई.ओ.यू.) कहलाता है
- (4) वचन पत्र कहलाता है

108. A person who receives a negotiable instrument in good faith and for valuable consideration is known as :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| (1) Holder | (2) Holder for value |
| (3) Holder in due course | (4) Holder in right |

एक व्यक्ति जो कि सद्भावना एवं मूल्यवान प्रतिफल स्वरूप परक्राम्य लिखत प्राप्त करता है, वह कहलाता है :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| (1) धारक | (2) मूल्यवान धारक |
| (3) सम्यक अनुक्रम धारक | (4) अधिकारिक धारक |

109. A promissory note drawn jointly by X, a minor and y, a major is :

- (1) Void
- (2) Valid but not negotiable
- (3) Valid but can be enforced only against Y
- (4) Can be enforced against only X

एक ऐसा प्रतिज्ञा पत्र जिसे संयुक्त रूप से X द्वारा जो एक अवयस्क है तथा Y जो वयस्क है द्वारा लिखा गया हो :

- (1) शून्य होता है
- (2) वैध है परन्तु अपरक्राम्य है
- (3) वैध है, परन्तु उसे केवल Y के प्रति कार्यान्वित किया जा सकता है।
- (4) केवल X के प्रति ही कार्यान्वित किया जा सकता है।

110. Contracts entered into by a company before its incorporation are called :

- (1) Provisional Contract
- (2) Preliminary contract
- (3) Pre-incorporation contract
- (4) Provisional and preliminary contract

14P/201/5(I)

एक कम्पनी द्वारा निगमन के पूर्व की गई संविदायें कहलाती हैं

- (1) अनंतिम संविदायें
- (2) आरंभिक संविदायें
- (3) निगमन के पूर्व की संविदायें
- (4) अनंतिम और आरंभिक संविदायें

111. Who has said, "A banker is a dealer in debts-his own and other people"?

- | | |
|---------------------|--------------|
| (1) Horace white | (2) Crowther |
| (3) Findlay Shirras | (4) Sayers |

किसने कहा है, "एक बैंकर अपने और अन्य लोगों के ऋणों का एक डीलर होता है" ?

- | | |
|-------------------|-------------|
| (1) हेरिश व्हाइट | (2) क्राउथर |
| (3) फिण्डले शिरास | (4) सेयर्स |

112. When of the following is the oldest Gold standard ?

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| (1) Gold Exchange Standard | (2) Gold Bullion Standard |
| (3) Gold Currency Standard | (4) Gold Reserve Standard |

निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्वर्णमान है :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| (1) स्वर्ण विनिमयमान | (2) स्वर्ण धातुमान |
| (3) स्वर्ण मुद्रामान | (4) स्वर्ण निधिमान |

113. 'RTGS' stands for :

- (1) Real Time Gross settlement system
- (2) Regional Teller Google settlement system
- (3) Rapid Time Gross settlement system
- (4) Real Teller Google settlement system

आर. टी. जी. एस. से आशय है :

- (1) रीयल टाइम ग्रास सेटिलमेंट सिस्टम
- (2) रीजनल टेलर गूगल सेटिलमेंट सिस्टम
- (3) रेपिड टाइम ग्रास सेटिलमेंट सिस्टम
- (4) रीयल टेलर-गूगल सेटिलमेंट सिस्टम

114. Exchange Equalisation Funds were established under which form of Gold standard :

- (1) Gold Bullion standard
- (2) Gold Exchange standard
- (3) Gold Parity standard
- (4) Gold Reserve standard

विनियम समानीकरण कोषों की स्थापना स्वर्णमान के किस स्वरूप में की गई थी :

- (1) स्वर्ण धातुमान
- (2) स्वर्ण विनियमान
- (3) स्वर्ण समतामान
- (4) स्वर्ण निधिमान

115. 'Actual Money' is also called as :

- (1) Unit of Account
- (2) Unit of currency
- (3) Commodity money
- (4) Representative money

'वास्तविक मुद्रा' को भी कहते हैं :

- (1) हिसाब की इकाई
- (2) चलन की इकाई
- (3) वस्तु मुद्रा
- (4) प्रतिनिधि मुद्रा

14P/201/5(1)

116. The basic difference between overdraft and cash credit is :

- (1) Overdraft is a temporary facility whereas cash credit is relatively a longer run facility
- (2) Overdraft is a permanent arrangement whereas cash credit is a short term temporary arrangement
- (3) Overdraft and cash credit is same
- (4) Overdraft is allowed against negotiable security whereas cash credit is advanced against fixed assets

अधिविकर्ष तथा नकद साख में मूल अन्तर होता है

- (1) अधिविकर्ष अस्थायी सुविधा है जबकि नकद साख अपेक्षाकृत एक दीर्घकालीन सुविधा होती है।
- (2) अधिविकर्ष स्थायी व्यवस्था है जबकि नकद साख अस्थायी व्यवस्था है।
- (3) अधिविकर्ष तथा नकद साख एक ही समान व्यवस्था हैं।
- (4) अधिविकर्ष विनिमय साध्य के आधार पर दी जाती है जबकि नकद साख स्थायी सम्पत्तियों के आधार पर दी जाती है।

117. The Issue of currency notes by the R.B.I. is :

- (1) Proportional Reserve system
- (2) Minimum Reserve system
- (3) Fixed reserve system
- (4) Maximum Reserve system

भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन की पद्धति है :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| (1) अनुपातिक कोष पद्धति | (2) न्यूनतम कोष पद्धति |
| (3) निश्चित कोष पद्धति | (4) अधिकतम कोष पद्धति |

118. The objective of IFC is :

- (1) Encourage private enterprise
- (2) co- ordinate capital with management
- (3) Encourage Foreign Investment
- (4) All the above

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का उद्देश्य है :

- (1) निजी उद्यम को प्रोत्साहन देना
- (2) पूँजी तथा प्रबन्ध को एकीकृत करना
- (3) विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन देना
- (4) उपरोक्त सभी

119. The world Bank Group consists of the following institutions

- (1) IBRD, IDA and IFC
- (2) IDA and IFC
- (3) IDA, IFC and MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)
- (4) IBRD, IDA, IFC and MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)

विश्व बैंक समूह में निम्नलिखित संस्थाओं का समावेश है :

- (1) IBRD, IDA तथा IFC
- (2) IDA तथा IFC
- (3) IDA, IFC तथा MIGA (बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण)
- (4) IBRD, IDA, IFC तथा MIGA (बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण)

14P/201/5(i)

120. Make correct pairs :

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| (1) World Bank | (a) Investment in Industries |
| (2) IDA | (b) Loan for Development |
| (3) IFC | (c) Long term Concessional Loans |
-
- | | |
|----------------------|----------------------|
| (1) 1(b); 2(c); 3(a) | (2) 1(a); 2(c); 3(b) |
| (3) 1(c); 2(b); 3(a) | (4) 1(a); 2(b); 3(c) |

सही जोड़े बनाइए :

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| (1) विश्व बैंक | (a) उद्योगों के विनियोग |
| (2) आई. डी. ए. | (b) विकास के लिए ऋण |
| (3) आई. एफ. सी. | (2) दीर्घकालीन रियासी ऋण |
-
- | | |
|----------------------|----------------------|
| (1) 1(b); 2(c); 3(a) | (2) 1(a); 2(c); 3(b) |
| (3) 1(c); 2(b); 3(a) | (4) 1(a); 2(b); 3(c) |

121. Monetary policy of the RBI is described as the policy of :

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| (1) Controlled expansion | (2) Expansion and growth |
| (3) Growth without stability | (4) Cheap money policy |

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति को की नीति के रूप में वर्णन किया जाता है :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| (1) नियन्त्रित विस्तार | (2) विस्तार और वृद्धि |
| (3) वृद्धि बिना स्थिरता | (4) तुच्छ मौद्रिक नीति |

122. Bank rate is an instrument of :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| (1) Accepting deposit | (2) Controlling money |
| (3) Controlling credit | (4) Lending money |

बैंक दर !..... का एक यंत्र है :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (1) जमा स्वीकार करने | (2) मुद्रा नियंत्रण करने |
| (3) साख नियंत्रण करने | (4) धन उधार देने |

123. Which of the following function is performed by R.B.I. ?

- (1) Discounting of Bills
- (2) Credit Creation
- (3) Custodian of cash reserves of banks
- (4) Ownership of other banks

निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्पन्न किया जाता है ?

- (1) बिलों का बट्टा करना
- (2) खास सृजन
- (3) बैंकों के नगद संचय का परिरक्षक
- (4) अन्य बैंकों का स्वामित्व

124. A scheduled commercial bank is one which is :

- (1) Owned as a partnership firm
- (2) Included in the second schedule of the RBI Act, 1934
- (3) Established under Banking Regulation Act
- (4) Subsidiary of RBI

14P/201/5(1)

एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक वह है, जो :

- (1) साझेदारी फर्म के रूप में स्वामित्व रखे
- (2) भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, 1934 के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो
- (3) बैंकिंग विनियमन एक्ट के अन्तर्गत स्थापित हो
- (4) भारतीय रिजर्व बैंक का सहायक

125. Demand for money in the modern sense is dependent on :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| (1) Liquidity preference | (2) Velocity of circulation |
| (3) Volume of exchange | (4) Volume of money supply |

नवीन भाव में मुद्रा की माँग पर निर्भर है :

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| (1) तरलता अभिरूचि | (2) प्रसार वेग |
| (3) विनिमय की मात्रा | (4) मुद्रा आपूर्ति की मात्रा |

126. A distribution has mean = 18.6, median = 17.5 and mode = 16.2 The distribution is :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) Positively skewed | (2) Negatively skewed |
| (3) Symmetrical | (4) A symmetrical |

एक वितरण में मध्य = 18.6, माध्यिका = 17.5 और बहुलक = 16.2 है तो वितरण है :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (1) धनात्मक विषमता | (2) ऋणात्मक विषमता |
| (3) समान | (4) एक समान |

127. Median is also called :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| (1) First Quartile | (2) Second Quartile |
| (3) Third Quartile | (4) Quartile Deviation |

माधिका को यह भी कहा जाता है :

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (1) प्रथम चतुर्थांक | (2) द्वितीय चतुर्थांक |
| (3) तृतीय चतुर्थांक | (4) चतुर्थांक विचलन |

128. In a batch of 13 students, 4 have failed. The marks of the successful students were 40, 56, 37, 65, 37, 39, 81, 71 and 44. Find the median marks :

13 विद्यार्थियों के समूह में, 4 अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांक 40, 56, 37, 65, 37, 39, 81, 71 और 44 थे तो प्राप्तांकों का माधिका ज्ञात करो :

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (1) 37 | (2) 39 | (3) 40 | (4) 44 |
|--------|--------|--------|--------|

129. The mean of squared deviations about the mean is called :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (1) Standard Deviation | (2) Quartile Deviation |
| (3) Mean Deviation | (4) Variance |

वर्ग-विचलन के माध्य में माध्य को कहा जाता है :

- | | |
|-----------------|---------------------|
| (1) मानक विचलन | (2) चतुर्थांक विचलन |
| (3) माध्य विचलन | (4) प्रसरण |

130. (Mean \pm 3 Standard Deviation) covers :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) 50 % items | (2) 90 % items |
| (3) 95.45 % items | (4) 99.73 % items |

(माध्य \pm 3 मानक विचलन) कवर करता है :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (1) वस्तु का 50 % | (2) वस्तु का 90 % |
| (3) वस्तु का 95.45 % | (4) वस्तु का 99.73 % |

14P/201/5(i)

131. If $\bar{X} = 500$ and $\sigma = 250$, the coefficient of variation is :

यदि $\bar{X} = 500$ और $\sigma = 250$ तब विचरण का गुणांक है :

- (1) 25 % (2) 50 % (3) 75 % (4) 100 %

132. Find the coefficient of variation, if the sum of squares of deviations of 10 observations taken from mean 50 is 250 :

विचरण का गुणांक ज्ञात करो, यदि 10 निरीक्षणों के वर्ग के विचलन के योग का माध्य 50 लेने से 250 है :

- (1) 10 (2) 25 (3) 50 (4) 250

133. Karl Pearson coefficient of correlation will be positive when :

- (1) X increaser, Y decreases
(2) Y increaser, X decreases
(3) Both X and Y are increasing
(4) X increases, Y remain constant

कार्ल पियरसन के सह सम्बन्ध का गुणांक धनात्मक होगा जब :

- (1) X बढ़ता है Y घटता है (2) X घटता है Y बढ़ता है
(3) दोनों X और Y बढ़ता है (4) X बढ़ता है Y स्थिर रहता है

134. If $\sum D^2$ is zero, the spearman's Rank correlation coefficient will be :

यदि $\sum D^2$ शून्य है, स्पेयरमैन रैंक सहसम्बन्ध गुणांक होगा :

- (1) -1.0 (2) -0.5 (3) +0.5 (4) +1.0

135. Fisher's ideal index formula satisfies :

- (1) Circular test
- (2) Time reversal test
- (3) Factor reversal test
- (4) Both the factor reversal and time reversal test

फिशर का आइडल इन्डेक्स सूत्र संतुष्ट करता है :

- (1) आवृत्त परीक्षण
- (2) समय प्रतिमान परीक्षण
- (3) उपादान प्रतिमान परीक्षण
- (4) दोनों उपादान प्रतिमान एवं समय प्रतिमान परीक्षण

136. Ordinal measure of utility is required in :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| (1) Revealed preference | (2) Utility |
| (3) Indifference curve | (4) Demand curve |

उपयोगिता के क्रम संख्या आकलन की आवश्यकता है :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| (1) खुलासा अधिमान में | (2) उपयोगिता में |
| (3) उदासीनता वक्र में | (4) माँग वक्र में |

137. In the case of an inferior good, the income elasticity of demand is :

- | | |
|--------------|--------------|
| (1) Positive | (2) Zero |
| (3) Negative | (4) Infinite |

एक निकृष्ट वस्तु के सम्बन्ध में माँग की आय लोच होती है :

- | | |
|-------------|-------------|
| (1) धनात्मक | (2) शून्य |
| (3) ऋणात्मक | (4) अपरिमित |

14P/201/5(I)

138. If regard less of changes in its price, the quantity demanded of a good remains unchanged, then the demand curve for the good will be :

- (1) Horizontal (2) Vertical
(3) Positevely sloped (4) Negatively sloped

यदि मूल्य में परिवर्तनों की अनदेखी की जाय और एक वस्तु की माँगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहे तो वस्तु के लिए माँग वक्र होगा :

- (1) क्षैतिज (2) लम्बवत
(3) धनात्मक ढलुआँ (4) नकारात्मक ढलुआँ

139. Firm gains abnormal profit in monopolistic competition when

फर्म एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में असामान्य प्राप्त करता है जब :

- (1) $MR = MC$ (2) $AR > AC$
(3) $AR = AC$ (4) $AR < AC$

140. When the price of a subsitute of a commodity x falls then the demand for x :

- (1) Increases (2) Decreases
(3) Remains unchanged (4) Fluctuates

जब उत्पाद x के प्रतिस्थापी की कीमत घटती है तब उत्पाद x की माँग :

- (1) बढ़ती है (2) घटती है
(3) कोई बदलाव नहीं होता (4) घटती बढ़ती है

141. The concept of imperfect competition was propounded by :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| (1) Marshall | (2) Jevons |
| (3) John Robinson | (4) Ms. Lillian Gilberth |

अपूर्ण प्रतियोगिता की धारणा प्रतिपादित किया है

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| (1) मार्शल ने | (2) जेवोन्स ने |
| (3) जॉन राबिन्सन ने | (4) श्रीमती लिलियन गिलब्रेथ ने |

142. Price discrimination is beneficial when :

- (1) Legal acceptance granted
- (2) Difference in elasticity of demand
- (3) Difference in distance of markets is greater
- (4) Market is small

कीमत विभेद लाभदायक होता है जब :

- (1) कानूनी स्वीकृति प्राप्त हो
- (2) मांग की लोच में अन्तर हो
- (3) बाजारों के बीच की दूरी अधिक हो
- (4) बाजार छोटा है

143. The FRBMA stands for :

- (1) Foreign Regulation and Budget management Act
- (2) Fiscal Responsibility and Budget management Act
- (3) Finance Regulations and Bonds management Association
- (4) Fund Reallocation and Budget management Act

14P/201/5(I)

FRBMA से तात्पर्य है :

- (1) विदेशी विनियम तथा बजट प्रबन्ध अधिनियम
- (2) राजकोषिय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्ध अधिनियम
- (3) बिल विनियम तथा बॉड प्रबन्ध संघ
- (4) कोष पुनः प्रभारण तथा बजट अधिनियम प्रबन्ध

144. One major factor that has stimulated the globalisation process is :

- (1) Effective utilisation of resources
- (2) Increase in income and wealth
- (3) Willingness to cooperate
- (4) Rapid improvement in technology

दश्विवकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करने का एक प्रमुख कारक है :

- (1) संसाधनों का प्रभावी उपयोग
- (2) आय व धन में वृद्धि
- (3) सहयोग करने की इच्छा
- (4) प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक सुधार

145. Co-existence of capitalism and socialism is a feature of :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) Laissez Faire | (2) communism |
| (3) Socialism | (4) Mixed Economy |

पूँजीवाद व समाजवाद का सह अस्तित्व एक विशेषता है :

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| (1) उन्मुक अर्थव्यवस्था का | (2) साम्यवाद का |
| (3) समाजवाद का | (4) मिश्रित अर्थव्यवस्था का |

146. Optimum welfare can be attained only under :

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| (1) Monopoly | (2) Imperfect competition |
| (3) Perfect competition | (4) Oligopoly |

अनुकूलतम कल्याण प्राप्त किया जा सकता है सिर्फ :

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| (1) एकाधिकार में | (2) अपूर्ण प्रतियोगिता में |
| (3) पूर्ण प्रतियोगिता में | (4) अल्पधिकार में |

147. Under new Industrial Policy 1991 :

- (1) The mandatory convertibility clause is applicable for all term loans
- (2) The mandatory convertibility clause is applicable for term loans less than 10 years
- (3) The mandatory convertibility clause is applicable for term loans of more than 10 years
- (4) The mandatory convertibility clause is no longer applicable

नई औद्योगिक नीति 1991 के अन्तर्गत :

- (1) अनिवार्य परिवर्तनीयता वाक्यांश सभी सावधि ऋणों के लिए लागू होता है
- (2) अनिवार्य परिवर्तनीयता वाक्यांश 10 वर्ष से कम के सावधि ऋणों के लिए लागू होता है
- (3) अनिवार्य परिवर्तनीयता वाक्यांश 10 वर्ष से अधिक के सावधि ऋणों के लिए लागू होता है
- (4) अनिवार्य परिवर्तनीयता वाक्यांश अब लागू नहीं होता है

14P/201/5(I)

148. In the case of Giffen good, the demand curve will be :

- (1) Horizontal
- (2) Downward sloping to the right
- (3) Backward falling to the left
- (4) Upward sloping to the right

गिफिन वस्तु के सम्बन्ध में माँग वक्र होगा :

- (1) क्षैतिज
- (2) दाँयी ओर अधोगामी ढलुआँ
- (3) बाँयी ओर पीछे की ओर गिर रहा हो
- (4) दाँयी ओर उर्ध्वगामी ढलुआँ

149. If a good is a luxury, its income elasticity of demand is :

- (1) positive and less than 1
- (2) Negative but greater than -1
- (3) Positive and greater than 1
- (4) Zero

यदि एक वस्तु विलासिता है, तो उसकी माँग की आय लोच होती है ?

- (1) धनात्मक और 1 से कम
- (2) ऋणात्मक लेकिन -1 से अधिक
- (3) धनात्मक लेकिन 1 से अधिक
- (4) शून्य

150. India is not a member of :

(1) G-15

(2) UNO

(3) ASEAN

(4) Commonwealth

भारत सदस्य नहीं है :

(1) G-15 का

(2) UNO का

(3) ASEAN का

(4) कॉमनवेल्थ में

14P/201/5(I)

62

14P/201/5(i)

63

P.T.O.

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

(इस पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर तथा उत्तर-पत्र के दोनों पृष्ठों पर केवल नीली-काली बाल-प्वाइंट पेन से ही लिखें)

1. प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के अन्दर ही देख लें कि प्रश्नपत्र में सभी पृष्ठ मौजूद हैं और कोई प्रश्न छूटा नहीं है। पुस्तिका दोषयुक्त पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल कक्ष-निरीक्षक को देकर सम्पूर्ण प्रश्नपत्र की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लें।
2. परीक्षा भवन में लिफाफा रहित प्रवेश-पत्र के अतिरिक्त, लिखा था सादा कोई भी खुला कागज साथ में न लायें।
3. उत्तर-पत्र अलग से दिया गया है। इसे न तो मोड़ें और न ही विकृत करें। दूसरा उत्तर-पत्र नहीं दिया जायेगा। केवल उत्तर-पत्र का ही मूल्यांकन किया जायेगा।
4. अपना अनुक्रमांक तथा उत्तर-पत्र का क्रमांक प्रथम आवरण-पृष्ठ पर पेन से निर्धारित स्थान पर लिखें।
5. उत्तर-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर पेन से अपना अनुक्रमांक निर्धारित स्थान पर लिखें तथा नीचे दिये वृत्तों को गाढ़ा कर दें। जहाँ-जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रश्न-पुस्तिका का क्रमांक तथा सेट का नम्बर उचित स्थानों पर लिखें।
6. ओ० एम० आर० पत्र पर अनुक्रमांक संख्या, प्रश्नपुस्तिका संख्या व सेट संख्या (यदि कोई हो) तथा प्रश्नपुस्तिका पर अनुक्रमांक और ओ० एम० आर० पत्र संख्या की प्रविष्टियों में उपरिलेखन की अनुमति नहीं है।
7. उपर्युक्त प्रविष्टियों में कोई भी परिवर्तन कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये अन्यथा यह एक अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा।
8. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के वैकल्पिक उत्तर के लिए आपको उत्तर-पत्र की सम्बन्धित पंक्ति के सामने दिये गये वृत्त को उत्तर-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर दिये गये निर्देशों के अनुसार पेन से गाढ़ा करना है।
9. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक ही वृत्त को गाढ़ा करें। एक से अधिक वृत्तों को गाढ़ा करने पर अथवा एक वृत्त को अपूर्ण भरने पर वह उत्तर गलत माना जायेगा।
10. ध्यान दें कि एक बार स्याही द्वारा अंकित उत्तर बदला नहीं जा सकता है। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो संबंधित पंक्ति के सामने दिये गये सभी वृत्तों को खाली छोड़ दें। ऐसे प्रश्नों पर शून्य अंक दिये जायेंगे।
11. रफ कार्य के लिए प्रश्न-पुस्तिका के मुखपृष्ठ के अंदर वाला पृष्ठ तथा उत्तर-पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ का प्रयोग करें।
12. परीक्षा के उपरान्त केवल ओ एम आर उत्तर-पत्र परीक्षा भवन में जमा कर दें।
13. परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा भवन से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
14. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, तो वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दंड का/की, भागी होगा/होगी।

